



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]

नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 9, 2011/पौष 19, 1932

No. 7]

NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 9, 2011/PAUSA 19, 1932

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2011

सं. 1-प्रेज/2011.—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों/संगठन को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सहर्ष प्रदान करती है :—

सर आनन्द सत्यानन्द

प्रोफेसर वीना हरभगवान सहजवाला

सुश्री लता पाडा

श्री हरिन्द्रपाल सिंह बांगा

श्री मौहम्मद मुनीर नाजिर हसन अंसारी

श्री उपजीत सिंह सचदेवा

तन श्री दातो' अजीत सिंह

श्री सालेह वाहिद

भारतीय समुदाय परोपकारी मंच, कतार

डा. मोहियाद्दीन सैयद करीमुद्दीन

श्री मानो सेल्वानाथन

श्री मोहन जाशनमल

बैरोनेस (डा.) संदीप वर्मा

श्री आशोक कुमार रामसरण

डा. राजीव शाह

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2011

No. 1-Pres/2011.—The President is pleased to award the Pravasi Bharatiya Samman Award to the following persons/organisation :

Sir Anand Satyanand

Prof. Veena Harbhagwan Sahajwalla

Ms. Lata Pada

Mr. Harindrapal Singh Banga

Mr. Mohammad Munir Nazir Hassan Ansari

Mr. Upjit Singh Sachdeva

Tan Sri Dato' Ajit Singh

Mr. Saleh Wahid

Indian Community Benevolent Forum, Qatar

Dr. Mohiaddin Syed Karimuddin

Mr. Mano Selvanathan

Mr. Mohan Jashanmal

Baroness (Dr.) Sandip Verma

Mr. Ashook Kumar Ramsaran

Dr. Rajiv Shah

BARUN MITRA, Jt. Secy.